



## MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

**Ref: MUL/SEC/2021-22/57**

**Date: August 05, 2021**

To,

National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex  
Bandra(E), Mumbai – 400051  
**Trading Symbol: MAYURUNIQU**

BSE Limited,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code: 522249**

**Subject: Newspaper advertisement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter ended on June 30, 2021**

**Dear Sir/Madam,**

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter ended on June 30, 2021 published in the English and Vernacular Language newspaper on August 05, 2021.

You are kindly requested to take the same on record.


Thanking you,

**For Mayur Uniquoters Limited**

**Rahul Joshi**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**M.No.A33135**



A Texture For Every Idea



**Correspondance Address:**

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423

**Regd. Office & Works:** Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420

Email: info@mavur.biz • www.mavuruniquoters.com

### Subros Limited

Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Bauxhalda Lane, New Delhi-110017  
Tel: No. 011-23455555 (Banking) Fax: 011-23455555 Website: www.subros.com

**EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021** (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE QUARTER ENDED (30 JUNE 2021)		CONSOLIDATED QUARTER ENDED (30 JUNE 2021)	
		Q1 2021	Q1 2020	Q1 2021	Q1 2020
1	Total Income from Operations	48,945	65,936	7,377	17,956
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax: Exceptional and Extraordinary Items)	457	3,910	(1,293)	5,572
3	Net Profit/(Loss) for the period (after Tax: Exceptional and Extraordinary Items)	457	3,910	(1,293)	5,572
4	Net Profit/(Loss) for the period (after Tax: Exceptional and Extraordinary Items)	311	2,557	(2,405)	4,670
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	305	2,906	(2,457)	4,763
6	Equity Share Capital	1,306	1,306	1,306	1,306
7	Reserves (including Provision/Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	78,167	-
8	Earnings Per Share (in ₹) (Face value of ₹2 each) (for consolidated operations)	0.48	3.92	(1.66)	7.16
9	(a) Basic (not annualised)	0.48	3.92	(1.66)	7.16
10	(b) Diluted (not annualised)	0.48	3.92	(1.66)	7.16

**Notes:**  
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly and year-ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated quarterly financial results are available on website of the Stock Exchanges i.e. www.secdisc.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.subros.com.  
2. The Company and its joint venture's operations comprise of only one segment i.e. Thermal products. Hence, no further information is required to be given in respect of segment.  
3. The second wave of COVID-19 pandemic has constituted a disruption throughout the country. The Company's operations has been adversely impacted due to the continued lockdown from which the operations were suspended for part of the quarter ended 30 June 2021.  
4. The Company has considered the possible effects that may result from COVID-19 in the preparation of these standalone financial results for the quarter ended 30 June 2021. While assessing the carrying value of its assets and liabilities, the Company has considered internal and external information available, and based on such information and assessment, has concluded that no further adjustments are required to be made in these standalone financial results. However, given the evolving scenario and uncertainties with respect to nature and duration of the impact of the pandemic may differ from that estimated as at the date of approval of these standalone financial results. The Company will continue to closely monitor any material changes in future economic conditions.  
5. In financial year 2019-20, the tax laws were amended, providing an option to pay tax at 25% plus applicable surcharge and cess ('New Rate') effective 1<sup>st</sup> April, 2019 with a condition that the Company will need to surrender specified deductions / incentives. Based on the assessment of future taxable profits, the Company decided to continue with the rate of 30% plus applicable surcharge and cess until the Minimum Alternate Tax (MAT) credit asset balance is utilised and opt for the New Rate thereafter. The Company re-measured its deferred tax balances accordingly.  
6. The consolidated financial results include the results of the following only namely Subros Limited (Company) and Centro Subros Thermal Engineering Centre India Private Limited (Joint Venture).

For and on behalf of the Board of Directors  
**SUBROS LIMITED**  
SHRADHA SURI  
CHAIRPERSON & MANAGING DIRECTOR

## 'Act East' policy: India deploys warships in South China Sea

SANJEEV MIGLANI  
New Delhi, August 4

INDIA IS SENDING a naval task force to the South China Sea this month to expand security ties with friendly countries, officials said on Wednesday, signalling its intent to play a financial role in regional efforts to counter China.

The Indian military has been traditionally wary of antagonising China but the mood has hardened following clashes between troops on the disputed land border last year.

The government has since downplayed US efforts to push back against China.

Four ships, including a guided missile destroyer and a missile frigate, will be deployed for a two-month period to southeast Asia, the South China Sea and the western Pacific, the Navy said in a statement.

"The deployment of the Indian Navy ships seeks to underscore the operational reach, peaceful presence and solidarity with friendly countries towards ensuring good order in the maritime domain," the Navy said.

The South China Sea has become one of many flashpoints in the tense relationship between China and the US, with Washington rejecting what it calls unlawful territorial claims by Beijing in the resource-rich waters.

In June a US aircraft carrier group led by the USS Ronald Reagan entered the South China Sea as part of a routine mission and a British carrier group is due to undertake exercises in the Philippine Sea this month. As part of their deployment, the Indian ships will take part in annual joint war drills involving the US, Japan and Australia off the coast of Guam, the Navy said.

The four countries make up the Quad, an informal group, that US President Joe Biden's administration is promoting as a way to counter an assertive China. "These maritime initiatives enhance synergy and coordination between the Indian Navy and friendly countries, based on common maritime interests and commitment towards Freedom of Navigation at sea," the Indian Navy said in its statement.

China has in the past criticised multilateral military manoeuvres as destabilising to the region. — REUTERS

## SUN SHINE IndiGrid draws up plan to buy solar assets of up to ₹5,000 cr

VIKAS SRIVASTAVA  
Mumbai, August 4

INDIGRID, INDIA'S FIRST POWER-SECTOR infrastructure investment trust (InvIT), is looking to acquire operational solar assets as part of its diversification strategy with an outlay of up to ₹5,000 crore.

The move comes after completion of five years of profitable operation of the transmission assets based InvIT. "IndiGrid now holds ₹21,000 crore of assets that gives us the headroom to diversify into other assets," said Harsh Shah, CEO. For the time being, IndiGrid would not venture into areas other than power transmission and solar projects, he added.

"We can bring anywhere between ₹4,000 crore to ₹5,000 crore worth of profitable solar projects under the current InvIT," he said, adding that there was no plan to float a new solar specific trust. Rather than big ticket solar projects, IndiGrid would scout for small and profitable ones, which are cost effective. The company in the last one year has acquired projects worth ₹7,500 crore which included the first solar asset for ₹660 crore bought in July 2021.

IndiGrid's right issue in April for ₹1,284 crore was



### POWER PLAY

■ IndiGrid is India's first power sector infrastructure investment trust  
■ In the last one year, it has acquired projects worth ₹7,500 crore  
■ Buys include first solar asset for ₹660 crore bought in July 2021

70% cap prescribed under the Sebi regulations," Shah said.

In Q1 FY22, IndiGrid's net revenue and operating profit grew 53% each year on year to ₹54 crore and ₹504 crore, respectively. The earnings were supported by acquisitions and strong operational performance.

The board also approved a distribution per unit (DPU) of ₹3.19. The record date for the distribution is August 5, 2021, and shall be paid as ₹3.04 per unit in the form of interest and ₹0.15 per unit as dividend. In the last 17 quarters since its listing, IndiGrid has distributed ₹48.96 per unit to its investors, which is a total return of over 83% on the issue price.

K&K and GIC together hold around 45% in IndiGrid while Sterlite Power holds 40% in the investment manager arm of IndiGrid.

"Our net debt to EBITDA as of June 30, 2021, stood at around 58%, which is well below the

oversubscribed 1.25 times, and thus created the headroom for growth. In May 2021, IndiGrid also launched the first public non-convertible debenture issue by any REIT or InvIT in the country to diversify its sources of debt and increase the debt tenure.

"Our net debt to EBITDA as of June 30, 2021, stood at around 58%, which is well below the

### From the Front Page

## Kumar Mangalam Birla steps down as Voda Idea chairman

ASSAM ENTRADE LIMITED

Regd. Off: 16 TARA CHAND DUTTA STREET  
2ND FLOOR, KOLKATA-700073  
CIN: L27199WB1989PL026657  
Website: www.assamentrade.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday 13th of August, 2021 at Kanpur to inter-alia consider and approve standalone and consolidated Unaudited financial results for the quarter ended 30th June 2021.

The said notice may be accessed on Company's website www.assamentrade.com and also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com.

For Assam Entrade Limited  
Date: 04.08.2021  
Place: Kanpur  
(Shiny Agnihotri)  
Company Secretary

or domestic financial entity, which can keep the company as a going concern.

"It is with a sense of duty towards the 27 crore Indians connected by VIL, I am now willing to hand over my stake in the company to any entity/public sector/government or any other that the government may consider worthy of keeping the company as a going concern," Birla said in the letter. "I and my team will be more than happy to work with the government to urgently explore all possible options and solutions to save the company and strengthen it in the national interest without any consideration of four private interests," he added. The company also said in Wednesday's regulatory filing that

hangs in balance with its cash flows depleting, a massive debt of ₹1.8 lakh crore and the company continuously losing customers to competition offering cheaper tariffs. The company has also highlighted it is facing challenges to raise the planned funds of ₹2,500 crore as investors are wary about the future of the telecom sector due to the low pricing structure.

Analysts have said Birla's offering his stake to the Centre has some basis as a lot of government money is riding on the company. For instance, of its ₹1.8 lakh crore net debt, government dues in the form of deferred spectrum payment (₹96,300 crore) and AGR dues (₹61,000 crore) come to around ₹1.57 lakh crore. The Aditya Birla Group has a 27.66% stake in Vodafone Idea.

The other partner in the firm is Vodafone PLC, which has around 44% stake. The current market capitalisation of the company is around ₹24,000 crore.

### Reliance

Regd. Office: NGD Informatics House, 5th Floor, 178 Bakhara Road, Mumbai  
Behind LIC Regdars Building, Cawasji Road, Mumbai - 400 003  
Phone: +91 22 4477 0553 Fax: +91 22 4477 0552 E-mail: investor\_relations@ril.in  
CIN: L26200MH1989PL004918

### INFORMATION REGARDING (A) THIRTY-THIRD ANNUAL GENERAL MEETING AND (B) RECORD DATE FOR DIVIDEND

The Thirty-third Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") on Friday, August 13, 2021 at 2:00 p.m. IST in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable conditions on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Notice of the AGM and the standalone and consolidated audited financial statements for the financial year 2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent to the Members of the Company (Participants), whose e-mail address is registered with the Company's KFinTech / Depository Participant. The Notice of the AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.ril.in and on the website of the Stock Exchanges, that is BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Company's Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"), at https://www.kfintech.com.

- Manner of registering / updating e-mail address:**
- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update their e-mail address by clicking on <https://www.kfintech.com/shareholder> or by writing to the Company with details of their shares, e-mail address and attaching a self-attested copy of PAN card of investor, relations@ril.in or to KFinTech at [kfintech@kfintech.com](mailto:kfintech@kfintech.com).
  - Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their e-mail address, are requested to register / update the same with the Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.
- Manner of casting vote(s) through e-voting**
- Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting, including voting remotely, (remote e-voting) by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and by Members who have not registered their e-mail address, is being provided in the Notice of the AGM. Members possessing the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically (in-situ Poll) at the AGM.
- Joining the AGM through VC**
- Members will be able to attend the AGM through VC, through link of <https://www.kfintech.com/ragm>. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the Notice of the AGM.

### RECORD DATE FOR DIVIDEND AND PAYMENT THEREOF

- The Company has fixed Friday, August 28, 2021 as the Record Date for determining entitlement of Members to dividend, recommended by the Board of Directors to the Company, for the financial year ended March 31, 2021.
- The dividend will be paid within a week from the conclusion of the AGM to the Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record Date, and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on the Record Date.
- Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Members who have updated their bank account details. Dividend amount is determined and will be despatched to the registered address of the Members who have not updated their bank account details.

### Manner of registering / updating mandate for receiving Dividend

- Members are requested to register / update their complete bank details (Members whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record Date, and in respect of the shares held in dematerialised mode, to the Members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on the Record Date):
  - with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and
  - with the Company / KFinTech by clicking on <https://www.kfintech.com/shareholder> or by e-mailing at investor\_relations@ril.in or [kfintech@kfintech.com](mailto:kfintech@kfintech.com). If shares are held in physical mode, by submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain Member's name, folio number, demat details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR Details), (ii) self-attested copy of the PAN card, and (iii) completed cheque/cd.
- Members are requested to carefully read the Notice of the AGM and in particular instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

By order of the Board of Directors  
Shreshth Dhokeja  
Company Secretary and Compliance Officer  
Place: Mumbai  
Date: August 5, 2021  
www.ril.in

### WELSPUN CORP LIMITED

Regd. Office: Welspan City, Village: Veerwadi, Taluka: Raju, Dist: Thane, Gujarat 391116  
Tel: 022-260222 Fax: 022-260223 E-mail: info@welspan.com  
Website: www.welspan.com  
Share Transfer Agent: M/s. J.P. Associates Pvt. Ltd., 101, Park Road, Mumbai - 400 005  
Tel: 022-2646 2000 Fax: 022-2646 2025

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 for the purpose of determining the names of the equity shareholders eligible for dividend as recommended by the Board and as may be declared by the shareholders of the Company at the 29th Annual General Meeting, the Company has fixed Tuesday, August 10, 2021 as the Record Date.

For Welspan Corp Limited  
Prateep Joshi  
Company Secretary  
FCS-4355

Mumbai, August 04, 2021

### Bilcare Research

Regd. Office: 102B, Shrihari, Pune 410505  
Tel: +91 2135 647501 E-mail: ca@bilcare.com  
Website: www.bilcare.com  
CIN: L28939PN1987PLC043553

**NOTICE**  
Notice is hereby given that pursuant to provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, August 11, 2021, inter-alia to consider and adopt the Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021. The Notice is also available on the website of the Company (www.bilcare.com) and that of the BSE Limited (www.bseindia.com).

For Bilcare Limited  
Vishwanth Chandan  
Managing Director

Pune  
Date: 04.08.2021

### GOCHIN MINERALS AND RUTILE LTD. (100% E.O.U.)

Regd. Office: PB No. 73, VVV/234, Market Road, Aland - 683 011, Kerala, India.  
Phone: (01) 0484-2626789 (6 Lines) Fax: 0484-2521826, 2522209. Tel: 0484-7625674  
Website: www.gochin.com E-mail: info@gochinminerals.com, crm@gochinminerals.com  
CIN: L28939PN1989PL005532

### EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2021

(Rs. in Lakhs)

Particulars	STANDALONE QUARTER ENDED (30 JUNE 2021)		CONSOLIDATED QUARTER ENDED (30 JUNE 2021)	
	Q1 2021	Q1 2020	Q1 2021	Q1 2020
Total Income from Operations (net)	3797.79	23837.28	8323.54	-
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax: Exceptional and Extraordinary Items)	(79.95)	1762.95	532.51	-
Net Profit/(Loss) for the period (after Tax: Exceptional and Extraordinary Items)	(79.95)	1762.95	532.51	-
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(89.50)	809.66	235.25	-
Equity Share Capital	783.00	783.00	783.00	-
Reserves (including Provision/Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	7754.71	-	-	-
Earnings Per Share (in ₹) (Face value of ₹10 each) (for consolidated operations)	(1.17)	10.36	3.20	-
(a) Basic (not annualised)	(1.17)	10.36	3.20	-
(b) Diluted (not annualised)	(1.17)	10.36	3.20	-

**Notes:**  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.secdisc.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.gochin.com.  
2. The Company and its joint venture's operations comprise of only one segment i.e. Thermal products. Hence, no further information is required to be given in respect of segment.  
3. The second wave of COVID-19 pandemic has constituted a disruption throughout the country. The Company's operations has been adversely impacted due to the continued lockdown from which the operations were suspended for part of the quarter ended 30 June 2021.  
4. The Company has considered the possible effects that may result from COVID-19 in the preparation of these standalone financial results for the quarter ended 30 June 2021. While assessing the carrying value of its assets and liabilities, the Company has considered internal and external information available, and based on such information and assessment, has concluded that no further adjustments are required to be made in these standalone financial results. However, given the evolving scenario and uncertainties with respect to nature and duration of the impact of the pandemic may differ from that estimated as at the date of approval of these standalone financial results. The Company will continue to closely monitor any material changes in future economic conditions.  
5. In financial year 2019-20, the tax laws were amended, providing an option to pay tax at 25% plus applicable surcharge and cess ('New Rate') effective 1<sup>st</sup> April, 2019 with a condition that the Company will need to surrender specified deductions / incentives. Based on the assessment of future taxable profits, the Company decided to continue with the rate of 30% plus applicable surcharge and cess until the Minimum Alternate Tax (MAT) credit asset balance is utilised and opt for the New Rate thereafter. The Company re-measured its deferred tax balances accordingly.  
6. The consolidated financial results include the results of the following only namely Gochin Minerals and Rutile Limited (Company) and Centro Subros Thermal Engineering Centre India Private Limited (Joint Venture).

On behalf of the Board  
Dr. S. N. Sashidharan Kartha  
Managing Director

### Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaipurva, Tehsil-Chomu, Dist. Jaipur-303704 (Ra.) India.  
Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1982PLC006952  
Website: www.mayuruniquoters.com Email: sec@mayurbi

### Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June 2021

(Rs. in Lakhs, except stated)

S.No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021
1	Total Income from Operations	12,392.57	4,443.79	53,257.58
2	Operating Profit (PBIDT)	2,341.77	412.59	14,508.18
3	Net Profit/(Loss) for the period Before Tax	1,768.05	23.11	11,950.04
4	Net Profit/(Loss) for the period After Tax	1,400.25	9.28	8,974.86
5	Total Comprehensive Income for the period	1,400.25	7.27	8,890.16
6	Equity Share Capital (of Rs. 5/- each)	2,227.68	2,226.38	2,228.88
7	Other Equity (Reserves)	-	-	60,091.95
8	Earning Per Share	-	-	-
	- Basic (In Rs.)	3.14	0.02	19.86
	- Diluted (In Rs.)	3.14	0.02	19.86

**Notes:**  
\* Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47 (1)(b) of SEBI (LODR)

(Rs. in Lakhs)

S.No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.2021
1	Turnover	12,694.78	3,805.36	50,080.50
2	Operating Profit (PBIDT)	2,943.40	504.02	14,001.85
3	Profit before Tax	2,374.82	116.56	11,818.26
4	Profit after Tax	1,808.50	81.47	8,903.82

\* The above is an extract of the detailed format of Quarterly ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com, and also on the Company's website at www.mayuruniquoters.com

For and on behalf of the Board of Directors  
Suresh Kumar Poddar  
Chairman & Managing Director  
Date: August 4, 2021  
CIN: 00022395

